

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL
CLASS : 8
SUBJECT : 2nd LANGUAGE HINDI
CHAPTER : 8
मुरझाया फूल

ANSWER SHEET

Ans 1) निम्न शब्दों के अर्थ बताइए :

- a) निस्सार : सारहीन, व्यर्थ
- b) व्यथित : दुखी
- c) शैशव : बचपन
- d) संपदा : संपत्ति
- e) मंजु : सुंदर

Ans 2) निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए :

- a) हास्य : मुझे हास्य रस की कविताएं बहुत पसंद हैं।
- b) सुमन : बगीचे में भांति भांति के सुमन खिले हैं।
- c) धरा : धरा की हरियाली हमारे मन को मोह लेती है।
- d) शुष्क : शुष्क फूलों को हम फेंक देते हैं।
- e) सर्वस्व : वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

Ans 3) निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

- a) बचपन में फूल पवन की गोद में खेला करता था। धीमी हवा उसे अपनी गोद में झुलाया करती थी।
- b) भ्रमर मधु यानि शहद के लिए फूलों पर मंडराते रहते हैं।
- c) फूलों पर रात मोती रूपी ओस की बूंदें लुटाती रहती हैं।
- d) फूल पूरी तरह खिल जाने के बाद पवन के साथ अठखेलियां किया करता था।
- e) कवियत्री फूल को दुख का अनुभव न करने की प्रेरणा देती है।
- f) पूर्ण खिल जाने पर पुष्प का रूप सुंदर और सुकोमल हो जाता है।
- g) ईश्वर ने सारे संसार को निस्सार बनाया है।
- h) फूल अपनी सुगंध और शहद सब कुछ दान कर देता है।
- i) फूल कर मुरझा जाने पर उसे धरती पर फेंक दिया जाता है। उसे पैरों तले रौंद दिया जाता है।
- j) विलोम शब्द : शुष्क = आर्द्र
दानी = कृपण

Ans 4) कवियत्री मुरझाए फूल को देख कर यह निष्कर्ष निकालती हैं :

- i) फूल अपना सब कुछ दान करके भी प्रसन्न रहता है।
 - ii) संसार उसकी दानशीलता को नहीं समझ पाता।
 - iii) हम जैसे मनुष्य की फिक्र और परवाह कौन करेगा ?
 - iv) संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं तथा सभी एक दूसरे से ऐसा ही व्यवहार करते हैं।
-

